

कार्यवृत्त

दिनांक 15.9.2000

नीति निर्धारण समिति की बैठक  
बी० टेक० इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में

चार वर्षीय (8-सेमेस्टर) पाठ्यक्रम, 2000-2001

आज दिनांक 15.9.2000 को बृसिक में चार वर्षीय (8-सेमेस्टर) इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में बी० टेक० डिग्री पाठ्यक्रम, 2000-2001 वर्ष के नीति निर्धारण (प्रवेश, फीस, मैनेजमेंट, आदि) के लिए कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

1. उक्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष 2000-2001 में प्रवेश शासनादेश संख्या 4156/2000-सोलह-प्रो.शि०-1-35/98, प्रविष्टि शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, दि० 29-अगस्त, 2000 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप किए जाएं। अर्थात् इंटर्मीडिएट अथवा समतुल्य परीक्षा के भौतिकी, रसायन तथा गणित विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक पाकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी, प्रवेश इंटर्मीडिएट परीक्षा के प्राप्तांकों की वरिष्ठता क्रम में किए जाएंगे।
2. आरक्षण नीति UPSEAT-2000/ U.P. Govt. की पॉलिसी के अनुरूप रहेगी।
3. आरक्षण सर्टिफिकेट के अनुसार सीटों का आवंटन किया जाय।
4. छात्रों की फीस का निर्धारण शासनादेश संख्या 3271/98-सोलह-प्रो.शि०-1-226/94 दि० 30 जुलाई 1998 तथा 7087/2000-सोलह-प्रो.शि०-1-78/91 दि० 15 फरवरी, 2000 के अनुरूप एवं कालेज फीस कोलेज युनिक के अनुरूप होगी अर्थात्

A. कालेज फीस (वर्ष में एक बार, एक क्वार्टर में)

|                          | Rs.    |
|--------------------------|--------|
| (i) Admission            | 8.00   |
| (ii) Development         | 50.00  |
| (iii) Dearness allowance | 120.00 |
| (iv) Fan                 | 10.00  |
| (v) Library              | 10.00  |
| (vi) Magazine            | 30.00  |
| (vii) Games              | 120.00 |
| (viii) Reading room      | 5.00   |
| (ix) Student Aid         | 5.00   |
| (x) Students' Union      | 10.00  |



|        |                                       |           |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| (xi)   | College day                           | Rs. 10.00 |
| (xii)  | Enrollment                            | 30.00     |
| (xiii) | Exam. fee (@ Rs. 290.00 per Semester) | 580.00    |
| (xiv)  | Identity card                         | 10.00     |
| (xv)   | Cultural Activity                     | 25.00     |
| (xvi)  | L. I. C.                              | 22.00     |
| Total  |                                       | 1045.00   |

### B विद्यार्थी छात्र फीस

|        |                               |             |
|--------|-------------------------------|-------------|
| 1. (i) | Caution money (workshop/Lab.) | Rs. 3000.00 |
| (ii)   | Caution money (Library)       | Rs. 2000.00 |
| Total  |                               | Rs. 5000.00 |


|                               | 1st Installment | 2nd Installment |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2. Tuition Fee (Per year)     | Rs. 4500.00     | 4500.00         |
| 3. Development Fee (Per year) | 1500.00         | 1500.00         |
| L. Other fee (Per year)       |                 |                 |
| a. Library fee                | 500.00          | 500.00          |
| b. Workshop fee               | 1250.00         | 1250.00         |
| c. Lab. fee                   | 2500.00         | 2500.00         |
| d. Computer & Stationary      | 750.00          | 750.00          |
| Total (2+3+4)                 | Rs. 11000.00    | Rs. 11000.00    |


फीस कॉलेज/विश्वविद्यालय/शाखा के निर्देशों के अनुरूप परिवर्तित हो सकते हैं,


5. छात्रों के फीस जमा करने की आन्तिम तिथि डि. 20-9-2000 प्रथम सूची की तथा 23.9.2000 द्वितीय सूची की होगी,
6. सम्बन्धित विषय में एक पूर्ण फाइल तैयार कर एक कॉपी Affiliation Section में दे दी जाय,
7. कॉलेज फीस Dean Science के पास तथा University fee वित्त अधिकारी के लेखा अनुभाग में जमा होगी,
8. परीक्षा कार्य संयोजक विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा,


9. आधे-वर्ष पर निम्नलिखित चर्चा हुई- विश्वविद्यालय फीस से 60% काष्ठ भाग पाठ्यक्रम के पढ़न-पाठन व्यवस्था, कारिजे-सी, लेब्र वर्क, आदि कार्यों में व्यय किया जाएगा, पढ़न-पाठन कार्यों की व्यवस्था के लिए यू.जी.सी./<sup>शास्त्र</sup> नॉर्मस के अनुसार होगा, जोकि Lecturers honorarium, T. A./~~DA~~ आदि, के लिए ~~the~~ Invited speaker/guest faculty के लिए लागू होगा, साथ ही कुछ पेपर्स/विषयों में आवश्यकतानुसार विचार समिति से पर सूजन के लिए प्रस्ताव पारित कराया जाय, हेतु तक 60-200% प्रति 30 मिनट के वाक्य आधिका औरत डूब वेहन मान पाए जो भीकृग हो, निमित्तनुसार विविध में कार्यरत अस्थापितों या अन्य की व्यवस्था की जाय।
10. पाठ्यक्रम की निर्देशिका पर चर्चा हुई एवं प्रस्ताव पर सहमति हुई।
11. पढ़न-पाठनकक्ष एवं प्रयोगशालाओं के लिए स्थान-चौरास में व्यवस्था की जाय।
12. कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् कुछ सचिव उक्त पाठ्यक्रम से सम्बन्धी Notification जारी करेंगे।


अध्यक्ष महोदय एवं सभी महानुभावों को धन्यवाद के बाद बैठक समाप्त हुई।


  
(श्री पी. के. गोयल)  
वित्त अधिकारी

  
15-9-2000  
डा. (रम. एस. रम. रम.)  
निर्माण अधिकारी, प्रो. वि.

  
18/9  
(श्री महेश चन्द्र)  
कुल सचिव

  
15.9.2000  
प्रो. (पी. के. एस. रम. रम.)  
कोऑर्डिनेटर, प्रो. वि.

  
प्रो. (रम. एस. रम. रम. रम.)  
संकायाध्यक्ष, विज्ञान.

  
18/9/00